

यू० एस० ए० हो आई है और संभव है कि उन की रिपोर्ट जल्दी आ जायेगी ।

Shri Joachim Alva: Is any attempt made to co-ordinate and review the work of the Committee which went to U.S.A. as well as the work of the Ministry of Agriculture team which went to U.S.S.R.?

Dr. P. S. Deshmukh: After the reports are submitted by them, certainly the reports will be scrutinised by us.

Shri S. N. Das: May I know the number of such Institutes which the team visited and the special subjects which they attended?

Dr. P. S. Deshmukh: The subjects they are expected to attend to are: the organisation and functions of the working of the Indian and American agricultural research institutions and agricultural colleges, and they are to make recommendations to remove some of the critical deficiencies in the existing facilities for research and education in India. The list of institutions they have visited will be too long, and I have not got it here.

Fertilizers

*1602. **Shri Eswara Reddi:** Will the Minister of Food and Agriculture be pleased to refer to the reply given to starred question No. 2441 on the 20th April, 1955 and state:

(a) whether a final decision has since been taken in regard to the reduction in the prices of fertilizers; and

(b) if so, the rate at which fertilizers will be available to cultivators this year?

The Minister of Agriculture (Dr. P. S. Deshmukh): (a) Not yet.

(b) Does not arise.

Shri Eswara Reddi: May I know the production cost and sale price of fertilizer now?

Dr. P. S. Deshmukh: The present rate is Rs. 12-11-0 per maund to the cultivator.

Shri T. B. Vittal Rao: The production cost at the factory and the sale price.

Mr. Speaker: It has been given, whatever it is.

Shri T. B. Vittal Rao: He has only given one figure.

Shri Nanadas: In view of the fact that the agricultural price level is falling and in view of the fact that certain State Governments have already requested the Central Government to lower the price of fertilizers, may I know whether the Government is proposing to lower the price

of these fertilizers in order to set an example to other manufacturers?

The Minister of Food and Agriculture (Shri A. P. Jain): Fertilizers are now being sold at a pooled price. We are examining all the possibilities of reducing this pooled price. But I might make it clear that there is no intention of introducing any element of subsidy.

Shri Nanadas: By what time will Government take a decision finally in this matter?

Shri A. P. Jain: We are making every effort to take an expeditious decision, and I think it will not be too long before we take a decision.

श्री एम० एल० द्विवेदी : इन रासायनिक खादों की कीमतों, उन की उपादेयता और प्रचार के सम्बन्ध में मैं ने उत्पादन मंत्री से प्रश्न पूछा था कि इस के लिये क्या क्या साधन अपनाये गये हैं। उन्होंने कहा था कि इस प्रश्न को खाद्य मंत्री से पूछना चाहिये। तो मैं जानना चाहता हूँ कि देहातों में इस के प्रचार के लिये सरकार ने क्या क्या उपाय किये हैं?

डा० पी० एस० बेनामुक्क : अच्छी फसल उगाने के लिये और अच्छी जानकारी काश्तकारी के लिये जो सारे हमारे प्रबन्ध हैं वह इसी वास्ते हैं कि इस की ज्यादा खपत हो और इस की मांग भी हो।

Shri T. S. A. Chettiar: I understand that the Sindri Fertiliser factory is working at a profit. May I know whether any maximum has been fixed for the profits that they can add to the cost of production so that the agriculturists may get it at the lowest possible price?

Shri A. P. Jain: The Sindri Fertiliser factory has been constantly reducing their prices and the prices have come down from Rs. 365 to Rs. 275.

Mangoes Export

*1603. **Shri S. C. Samanta:** Will the Minister of Food and Agriculture be pleased to state the quantity of canned mangoes exported so far during the current year?

The Minister of Agriculture (Dr. P. S. Deshmukh): Separate figures in respect of export of canned mangoes are not available. The quantity exported so far during the current year is, however, estimated to be about 100 tons.

Shri S. C. Samanta: May I know whether there is any machinery to test the quality of the canned mangoes that are exported ?

Dr. P. S. Deshmukh: I do not think there is any special machinery. I think our attention has not been drawn to that.

Shri S. C. Samanta: Is it not a fact that various countries in the world are taking Indian mangoes very much and may I know whether the Government intend to institute such a machinery so that good quality mangoes may be sent out ?

Dr. P. S. Deshmukh: I do not think there has been any complaint that we have sent any bad mangoes.

Shri Kajrolkar: May I know the States which are producing large quantities of mangoes for canning and export ?

Dr. P. S. Deshmukh: I do not wish to allow Members to compete with each other in this, because I have found, everybody is very proud of the mangoes that he grows. Essentially, Bombay is one of the States. Andhra produces very good quality.

Shri Raghunath Singh: What about Banaras langda ?

Shri D. C. Sharma: What about Hoshiarpur ?

ग्रामीण क्षेत्रों में डाकघर

*१६०४. **श्री भक्त बर्षान :** क्या संचार मंत्री २८ फरवरी, १९५५ को दिये गये अंतरांकित प्रश्न संख्या ८२ के उत्तर के संबंध में यह बताने की कृपा करेंगे कि :

(क) क्या सरकार दूसरी पंचवर्षीय योजना के दौरान में ग्रामीण क्षेत्रों में डाक सम्बन्धी सुविधायें देने के लिये नये डाकघर खोलने की शर्तों में ढील देने का विचार करती है ; और

(ख) यदि हां, तो कहां तक ?

संचार उपमंत्री (श्री राज बहादुर) :
(क) तथा (ख). इस विषय पर विचार किया जा रहा है ।

श्री भक्त बर्षान : क्या गवर्नमेंट ने समय-समय पर यह घोषित नहीं किया है कि गवर्नमेंट का लक्ष्य पांच वर्ष या दस वर्ष के अन्दर प्रत्येक

ग्राम में एक डाकखाना खोलने का है और इस चीज की ध्यान में रखते हुए क्या गवर्नमेंट नियमों में कुछ सुधार करने का भी विचार कर रही है ?

श्री राज बहादुर : जो घोषणा की गई है वह इससे कुछ भिन्न है । घोषणा यह की गई थी कि जहां १९५१ में १५,५३८ व्यक्तियों के ऊपर एक डाकखाना था और २७ सक्वेयर मील के बीच में एक डाकखाना था, इसको घटाकर ७५०० व्यक्तियों के पीछे एक डाकखाना खुल सके और इसी तरह से प्रति डाकखाने के लिये जो क्षेत्रफल है उसको भी कम किया जा सके ।

श्री भक्त बर्षान : इस समय जो नियम है उसके अनुसार कम से कम २००० आबादी होनी चाहिये और दो मील से अधिक का कोई गांव डाकखाने के बगैर नहीं रहना चाहिये । क्या गवर्नमेंट इस मुद्दाव पर भी विचार कर रही है कि अगली पंच वर्षीय योजना के अन्तर्गत १००० की आबादी और एक मील का क्षेत्रफल हो और साथ में हानि का जो एमाउंट ७५० (है उसे घटाकर ५००) कर दिया जाए ? क्या स पर विचार हो रहा है ?

श्री राज बहादुर : अगर लास की लिमिट-को ७५० से घटाकर ५०० कर दिया जाए तब तो डाकखाने और भी कम हो जाएंगे । अगर इसे बढ़ाकर १,००० करें तब और डाकखानों के खुलने की उम्मीद हो सकती है । यह निश्चित है कि जहां हमारा लक्ष्य यह था कि २ मील के दायरे में बसने वाले ग्राम समूहों लिये (यदि उन की आबादी २००० है तो) में एक डाकखाना हो उस के दायरे में तबदीली करें, इस पर विचार हो रहा है लेकिन अस्त में क्या फैसला होगा यह कहना मेरे लिये समय से पूर्व होगा ।

Shrimati Ila Palchoudhary : What is the maximum distance that is envisaged from a village to a post office now-a-days ?

Shri Raj Bahadur: Threemiles.